

हिंदी पखवाड़ा-2020: एक रिपोर्ट राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र , भुवनेश्वर में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन 14 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 तक किया गया। परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते प्रतियोगिताओं का आयोजन संभव नहीं हो सका । पखवाड़े के दौरान कार्यालय के सभी पदाधिकारियों से ज्यादा से ज्यादा हिंदी में काम करने की अपील की गई । पखवाड़े का समापन समारोह दिनांक 28/09/2020 को आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में सभी जिलाधिकारी VC के माध्यम से जुड़े। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इस समापन समारोह में कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस अवसर पर कार्यालय में राजभाषा हिंदी विषय को लेकर चर्चा हुई।



उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्रीमति कविता रय दास ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं वल्कि पूरे भारत के जनमानस के भावनाओं को भी जोड़ती है। इसलिए अब समय आ गया है कार्यालय में सभी उच्चाधिकारीगण हिंदी को सच्चे दिल से अपनाएँ और इसमें काम करने का प्रयास करें ताकि अधस्तन कर्मचारी भी प्रेरित होकर हिंदी में काम करना सीखें। श्रीमति दास ने सभी से आग्रह किया कि कार्यालय में सब हिंदी में

वार्तालाप करें। इस पावन अवसर पर अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री एस ए खॉ ने यह कहा कि अंग्रेजी से हिंदी में काम करना आसान है और हिंदी देवनागरी लिपि में एक उन्नत भाषा है, जिसके हर एक उच्चारण के लिए एक अक्षर है, इसलिए अपने अपने प्रांतों की भाषा का सम्मान करते हुए हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। श्री खॉ ने यह भी सबको अवगत कराया कि राजभाषा नीति के अंतर्गत जहां तक हिंदी प्रशिक्षण का सवाल है, हमारे कार्यालय में तथा लगभग सभी जिलाधिकारी हिंदी प्रशिक्षण ले चुके हैं, इस लिए सब अपने अपने स्तर पर हिंदी में काम करें। ट्रेनिंग अनुभाग के मुख्य श्री एस. के. महापात्र ने भी हिंदी पखवाड़े के इस अवसर पर हिंदी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह तभी संभव होगा जब हम इसका सतत प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ कई अन्य अधिकारी भी राजभाषा हिंदी के प्रति अपना सुविचार व्यक्त किए। अंत में सदस्य सचिव सुश्री अलका प्रधान ने उपस्थित पदाधिकारियों को सादर धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम में जुड़ने और इसे सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।